



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 438]

No. 438]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 1978/अश्विन 4, 1900

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 1978/ASVINA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1978

आदेश

का० प्रा० 569 (अ)/18 खख/उ० वि० वि० अ०/78— भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 546 (अ)/18 एफ० बी०/आई० बी० आर० ए०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ 'मेक्स' एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (लम्स) प्रा० लि० कलकत्ता के नाम से, जाल औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी।

(ख) सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, न्यायी आदेशों या अन्य लिखितों का, जो प्रस्तुत हैं प्रवर्तन जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व लागू हो और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारी, विशेषाधिकारी, बाध्यताएं और दायित्व 26 सितम्बर, 1976 तक निरस्त रहेंगे।

और उक्त आदेश की प्रवृत्ति को 26 सितम्बर, 1978 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की प्रवृत्ति को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की प्रवृत्ति 26 सितम्बर, 1979 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है के लिए और बढ़ाती है।

[सं० फ० 2/(27)/75-सी० यू० सी०]

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 26th September, 1978

ORDER

S.O. 569(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 546(E)/18FB/IDRA/75 dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section

(1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that :—

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertaking known as Messrs Ancillary Industries (Lugs) Private Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of that Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 26th September, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 26th September, 1979.

[File No. 2/27/75-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.